

बाढ़

तैयार रहें • सावधानियां बरतें • सुरक्षित रहें

पीने और खाना पकाने के लिए स्वच्छ जल का ही प्रयोग करें



स्वच्छ जल क्या है?

स्वच्छ जल

रंगहीन

गंधहीन

स्वादहीन



और रसायनिक, जैविक और भौतिक
संदूषण से मुक्त होता है



सुरक्षित जल केंद्रों
से ही जल लें



पानी को उबालकर/
क्लोरीनीकरण/सिरेमिक
फिल्टर द्वारा साफ करने के
बाद ही हस्तेमाल करें



पानी को सुरक्षित
रूप से संग्रहित करें
संदूषण को रोकने के
लिए उसे ढक कर रखें



पानी भरने, उसे ले
जाने या बर्तन में डालते
समय पानी को छूने और
प्रदूषित करने से बचें

हेल्पलाइन 112

